





## प्रमुख खबरें

- मौजूदा खरीफ सीजन में धान की खरीद 700 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है और किसानों को लगभग 1,45,845 करोड़ रुपये के एमएसपी का भुगतान किया गया है: उपभोक्ता मामले मंत्रालय।
- 2022-23 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की कम उपज के कारण चीनी उत्पादन पिछले वर्ष के 35.9 मीट्रिक टन से 7% घटकर 33.5 मिलियन टन होने का अनुमान है : भारतीय चीनी मिल संगठन
- इंटरनेशनल कॉपर स्टीडि ग्रुप के अनुसार, वैश्विक स्तर पर खदानों से तांबे का उत्पादन जनवरी-दिसंबर, 2022 में 3.3% बढ़कर 21.81 मिलियन टन हो गया, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 21.10 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।
- केंद्र सरकार के अनुसार वित्त वर्ष-2025 तक घरेलू कोयले का उत्पादन 1.31 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। चालू वित्त वर्ष में भारत का घरेलू कोयला उत्पादन 16 प्रतिशत बढ़कर 698.25 मिलियन टन हो गया है।
- इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टीडि ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक जिंक बाजार में नवम्बर महीने के 66,900 टन के संशोधित घाटे की तुलना में दिसंबर में घाटा बढ़कर 100,500 टन हो गया।
- इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टीडि ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर लेड बाजार नवम्बर महीने के 9,200 टन के संशोधित सरप्लस की तुलना में दिसंबर में 6,100 टन की कमी दर्ज की गई है।
- वित्त मंत्रालय के संशोधित आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 में भारत का गुड्स और सर्विस कर राजस्व 12.7% बढ़कर लगभग 1.59 लाख करोड़ हो गया, जो रिकॉर्ड दूसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह है।
- एफसीआई ने ई-नीलामी के तीसरे दौर में थोक उपभोक्ताओं को 5.08 लाख टन गेहूं बेचा। पहले दो दौर में, खाद्यान्न और गेहूं के आटे की खुदरा कीमतों को कम करने के लिए खुले बाजार विक्री योजना के तहत थोक उपयोगकर्ताओं को लगभग 13 लाख टन गेहूं बेचा गया है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.02.23	23.02.23	बदलाव (%)
हल्दी	6948.00	7204.00	3.68%
धान	4450.00	4522.00	1.62%
बाजरा	2159.00	2191.00	1.48%
जीरा	30495.00	30875.00	1.25%
गुड़	1183.00	1191.00	0.68%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.02.23	23.02.23	बदलाव (%)
कॉटनऑयलसीडकेक	2827.00	2635.00	-6.79%
धनिया	7158.00	6824.00	-4.67%
ग्वारसीड	5843.00	5646.00	-3.37%
ग्वारगम	12250.00	11910.00	-2.78%
कैस्टरसीड	6750.00	6564.00	-2.76%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.02.23	23.02.23	बदलाव (%)
निकल	2269.00	2314.00	1.98%
मेंथा ऑयल	1026.80	1044.60	1.73%
नेचुरल गैस	196.40	199.70	1.68%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.02.23	23.02.23	बदलाव (%)
तांबा	775.75	763.65	-1.56%
लेड	184.60	181.90	-1.46%
सोना गिनी	44957.00	44408.00	-1.22%
सोना	56622.00	55950.00	-1.2%
सोना एम	56271.00	55651.00	-1.1%

## साप्ताहिक समीक्षा

कमोडिटीज में पिछले हफ्ते मामूली गिरावट देखी गई। सीआरबी इंडेक्स 290 के करीब बंद हुआ। सोने की कीमतों में कई हफ्तों की गिरावट देखी गई लेकिन चांदी की कीमतों में कम गिरावट हुई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति पर अधिक संकेतों के लिए आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही फेडरल रिजर्व द्वारा आक्रामक कदम की संभावना से डॉलर के छह सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण सोने की कीमतों में नरमी के रुझान के साथ 56000 के स्तर के करीब कारोबार हुआ। बुधवार को जारी फेड की फरवरी की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि मौद्रिक नीति समिति के अधिकांश सदस्यों ने इस साल ब्याज दरों को बढ़ाने का समर्थन किया है। लेकिन 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी के लिए उनकी मांग को यह देखते हुए पुराना माना गया कि फेड की बैठक के बाद के आंकड़ों से पता चला है कि मुद्रास्फीति उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ रही। बढ़ती ब्याज दरें सोना और अन्य कीमती धातुओं जैसे गैर-योल्ट संपत्तियों को रखने की अवसर लागत को बढ़ा देती हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट से कोई राहत नहीं मिली और गिरावट के साथ में बंद हुई। 2022/23 के सर्दियों के मौसम की असामान्य रूप से गर्म शुरुआत के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक की तुलना में हीटिंग की काफी कम मांग होने से भंडारण में अधिक गैस रही है। ऊर्जा सूचना प्रशासन ने गुस्वार को बताया कि 10 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान, अमेरिकी गैस भंडारण में 2.266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस थी, जो एक साल पहले के 1.938 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के स्तर से 17% अधिक थी। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट हुई। बुधवार को तेल की कीमतें 2 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़कर दो सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई, क्योंकि निवेशक हाल के आंकड़ों के बाद केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक आक्रामक ब्याज दर में वृद्धि की संभावना से आर्थिक विकास और ईंधन की मांग पर दबाव को लेकर अधिक चिंतित हो गए। बेस मेटल में, अमेरिकी व्यापार गतिविधि में लचीलेपन के कुछ संकेतों के साथ-साथ चीन में सुधार की आशा के बीच तांबा और जिंक की कीमतों में वृद्धि हुई। जबकि एल्युमीनियम और लेड की कीमतों में गिरावट हुई। एलएम्ई गोदामों में रूसी सामग्री के प्रवाह का एल्युमीनियम की कीमतों पर नरमी का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

कृषि कमोडिटीज में, बाजार से कम उठाव के कारण अरंडी की कीमतों में दो सप्ताह तक तेज गिरावट दर्ज की गई। कपास का कारोबार एक दायरे में हुआ जबकि कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में गिरावट हुई। उत्तर भारत के सूती धागे के बाजार में सेंटिमेंट में सुधार देखा गया है, व्यापार सूत्रों ने बताया है कि सूती धागे की मांग पहले ही बढ़ चुकी है। वस्त्र उद्योग के भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक खरीदारों को 2023 के मध्य तक बड़े ऑर्डर देने की उम्मीद है। ग्वारगम की कीमतों में गिरावट हुई, इसके विपरीत ग्वारसीड की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्वारगम और ग्वारसीड की कीमतों में तेजी आई। लेकिन उत्पादक क्षेत्रों से आपूर्ति में वृद्धि के बीच बढ़त सीमित रही।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	17.02.23	23.02.23	(%)
जौ	जयपुर	2884.80	2785.80	-3.43%
चना	दिल्ली	5100.00	5099.95	0.00%
धनिया	कोटा	7081.15	6730.50	-4.95%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	885.80	899.25	1.52%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1182.15	1185.10	0.25%
ग्वारसीड	जोधपुर	5909.35	5829.35	-1.35%
ग्वारगम	जोधपुर	12510.05	12183.80	-2.61%
जीरा	ऊंझा	30590.00	30603.10	0.04%
सरसों	जयपुर	5977.85	5808.85	-2.83%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	1165.00	1135.00	-2.58%
सोयाबीन	इंदौर	5660.15	5655.45	-0.08%
हल्दी	निजामाबाद	6989.85	7063.05	1.05%
गेहूं	दिल्ली	2569.10	2407.55	-6.29%
काँटन	कड़ी	30118.10	29914.95	-0.67%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2844.30	2765.65	-2.77%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	17.02.23	23.02.23	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2387.50	2396.00	0.36%
तांबा	LME	नकद	8987.50	8904.00	-0.93%
लेड	LME	नकद	2065.00	2056.00	-0.44%
निकल	LME	नकद	25793.00	25387.00	-1.57%
जिंक	LME	नकद	3058.00	3034.50	-0.77%
सोना	COMEX	मार्च	1842.00	1818.80	-1.26%
चांदी	COMEX	मार्च	21.72	21.31	-1.89%
लाइट क्रूड	NYMEX	अप्रैल	76.34	75.39	-1.24%
नेचुरल गैस	NYMEX	मार्च	2.28	2.31	1.32%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	17.02.23	23.02.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मई	15.22	15.27	0.33%
सोया तेल	CBOT	मई	61.75	62.18	0.70%
काँटन	ICE	मई	81.50	82.16	0.81%
सीपीओ	BMD	मई	4,131.00	4,235.00	2.52%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	16.02.23 क्वांटिटी	23.02.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	14469	12406	-2063
धनिया	मी.टन	0	0	0
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	2546	5608	3062
ग्वारगम	मी.टन	15327	15307	-20
ग्वारसीड	मी.टन	21748	22742	994
जीरा	मी.टन	0	105	105
मक्का	मी.टन	0	0	0
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	0	0	0

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	17.02.23 क्वांटिटी	23.02.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3709	3618	-91
तांबा	मी.टन	1123987	1053713	-70274
सोना	किग्रा	318	318	0
सोना मिनी	किग्रा	13456	13456	0
सोना गिनी	किग्रा	29500	120500	91000
लेड	किग्रा	837	1146	309
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	253472	243252	-10221
चांदी एम	किग्रा	40935	40935	0
जिंक	मी.टन	1455	1960	505

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 17.02.23	स्टॉक की स्थिति 23.02.23	अंतर
एल्युमीनियम	597825	574025	-23800.00
तांबा	64975	65425	450.00
निकल	45432	44514	-918.00
लेड	24700	24950	250.00
जिंक	29850	31025	1175.00



## ट्रेड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेड बदलाव की तिथि	ट्रेड	भाव के ट्रेड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मार्च	30875.00	25.01.23	मंदी	31485.00	-	31970.00	32000.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	7204.00	25.01.23	मंदी	7744.00	-	7450.00	7500.00
NCDEX	ग्वारसीड	मार्च	5646.00	07.02.23	मंदी	6000.00	-	6095.00	6100.00
NCDEX	कैस्टरसीड	मार्च	6564.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	6940.00	6950.00
NCDEX	स्टील लांग	मार्च	49240.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	49750.00	49800.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मार्च	2635.00	30.01.23	मंदी	2890.00	-	2780.00	2800.00
MCX	मेंथा ऑयल	मार्च	1044.60	23.02.23	तेजी	1030.00	1020.00	-	1015.00
MCX	बुलडेक्स	मार्च	15151.00	15.02.23	मंदी	15300.00	-	15450.00	15500.00
MCX	चांदी	मई	65725.00	14.02.23	मंदी	66000.00	-	67450.00	67500.00
MCX	सोना	अप्रैल	55587.00	14.02.23	मंदी	56500.00	-	57000.00	57100.00
MCX	मेटलडेक्स	मार्च	18039.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	17000.00	19000.00	-
MCX	तांबा	मार्च	763.65	15.02.23	मंदी	770.00	-	786.50	788.00
MCX	लेड	मार्च	181.90	15.02.23	मंदी	184.00	-	187.00	188.00
MCX	जिंक	मार्च	269.70	15.02.23	मंदी	275.00	-	279.00	280.00
MCX	एल्युमिनियम	मार्च	210.45	15.02.23	मंदी	212.00	-	216.00	217.00
MCX	कच्चा तेल	मार्च	6257.00	30.01.23	मंदी	6400.00	-	6750.00	6800.00
MCX	नेचुरल गैस	मार्च	199.70	19.12.22	मंदी	480.00	-	246.00	250.00

\*23/02/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक को रूझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना को ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### तांबा (मार्च) एमसीएक्स



### तांबा (मार्च) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 786.60

निचला स्तर: 760.40

एमसीएक्स में तांबा (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 23 फरवरी 2023 को 763.65 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 754.77 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 45.91 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

780.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 745.00 ₹ के टारगेट के लिए 768.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### हल्दी (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



### हल्दी (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 8730.00

निचला स्तर: 6800.00

एनसीडीईएक्स में हल्दी (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 23 फरवरी 2023 को 7204.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6965.15 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 43.880 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

7450.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6850.00 ₹ के टारगेट के लिए 7300.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### कच्चा तेल (मार्च) एमसीएक्स



### कच्चा तेल (मार्च) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 6770.00

निचला स्तर: 6070.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 23 फरवरी 2023 को 6257.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6184.10 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 45.411 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6780.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5800.00 ₹ के टारगेट के लिए 6450.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

स्थानीय बाजार में त्योहारी खरीदारी में सुधार के कारण हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए खरीदारी गतिविधियों में सुधार हो रहा है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में कम उत्पादन के कारण पिछले साल की तुलना में फरवरी महीने में आवक कम हुई है। तेलंगाना में किसान कम कीमत मिलने के कारण आवक लाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। किसान बेहतर कीमत पाने के लिए हल्दी पर एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष के 37.5 हजार टन की तुलना में फरवरी-23 में अब तक प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 14.6 हजार टन की आवक हुई है। हल्दी की निर्यात मांग में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है जिससे निकट भविष्य में कीमतों में तेजी आएगी। हल्दी की कीमतों को 6700 का सपोर्ट रहने की उम्मीद है और निकट अवधि में 7600 की ओर बढ़ने की संभावना है।

मिलों के साथ-साथ स्टॉकियों के पास भी स्टॉक काफी कम हैं जो उन्हें कीमतों में हर गिरावट पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। कीमतों को 29000 के पास मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और कीमतें इस स्तर के करीब आने पर खरीदारी दिखाई दे रही है। गुजरात में रकबा घटने से वर्ष 2023 में जीरे का उत्पादन 5-8% कम होने की उम्मीद है। बेहतर मांग परिदृश्य के कारण जीरे की कीमतों में गिरावट सीमित रह सकती है। त्योहारी मांग में सुधार और निर्यात पूछताछ से बाजार के सेंटिमेंट में मजबूती बनी रहेगी। चीन में आयात में गिरावट के कारण वर्ष 2022 में जीरा निर्यात साल-दर-साल 22% घटकर 1.78 लाख टन रह गया। चीन ने पिछले वर्ष के 62.8 हजार टन की तुलना में वर्ष 2022 में केवल 37.9 हजार टन का आयात किया। जीरा की कीमतें 29000-34000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आगामी सीजन में आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। मांग में कमी आई है क्योंकि प्रमुख खरीदार और मसाला मिलें प्रमुख मंडियों में नई आवक की बढ़ती आपूर्ति की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रही हैं। वर्ष 2021-22 में धनिया का कुल उत्पादन 8 लाख टन अनुमानित था और अधिक रकबे के बीच बेहतर उपज की संभावनाओं के कारण वर्ष 2022-23 में उत्पादन 9.5 लाख टन तक बढ़ने की उम्मीद है। धनिया की कीमतों के 6500-7400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

सुस्त औद्योगिक खरीद के कारण कॉटन/कपास की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। कपास के उच्च उत्पादन संभावना और किसानों के पास भारी स्टॉक से कीमतों में अधिक गिरावट आने की संभावना है। कपड़ा मंत्रालय की कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति ने चालू सीजन के दौरान कपास का उत्पादन 337.23 लाख गांठ (170 किलोग्राम प्रत्येक) होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले सीजन की तुलना में लगभग 8% अधिक है। मौजूदा कपास सीजन में कपड़ा मिलों, जिनमें लघु उद्योग इकाइयां भी शामिल हैं, की खपत 295 लाख गांठ होने की संभावना है, जबकि निर्यात 35 लाख गांठ होने का अनुमान है। एनसीडीईएक्स पर कपास (अप्रैल) की कीमतों के 1570-1700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतें 62000-64000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

हाजिर बाजार में सुस्त मांग के कारण कॉटनऑयलसीडकेक (मार्च) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है। पशु चारा उद्योग की ओर से मांग कम हो गई है, जिसमें अधिकांश स्टॉकिस्ट वैकल्पिक पशु आहार और सरसोंकेक की बढ़ती उपलब्धता के मद्देनजर आवश्यकतानुसार खरीदारी रहे हैं। बिनौला तेल खली की आपूर्ति अधिक होने की संभावना है क्योंकि किसानों के पास बेहतर मूल्य संभावना में कपास का भारी स्टॉक है। कीमतों के 2560-2730 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में सीमित खरीदारी के कारण ग्वारसीड (मार्च) वायदा की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है। ग्वारगम की निर्यात मांग मार्च में सीमित रहने की संभावना है जो प्रमुख खरीदारों को ग्वार की थोक खरीद से दूर रखेगी। लेकिन स्थानीय बाजार में आपूर्ति कम होने से ग्वार की कीमतों में कम गिरावट होने की संभावना है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आवक भी कम हो गई है क्योंकि किसान कीमतों में और अधिक वृद्धि की उम्मीद में रुके हुए हैं। तकनीकी रूप से, ग्वारसीड की कीमतों को 5650 के सपोर्ट पर और निकट अवधि में 6300 पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 11200-14000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मांग में सुधार के कारण मेंथा ऑयल वायदा (मार्च) की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। कारोबारियों की नजर मुख्यतः आगामी बुवाई के आंकड़ों पर होगी क्योंकि रबी फसल की कटाई के बाद पश्चिमी यूपी में बुवाई शुरू होने की संभावना है। भारत के उत्तरी भाग में सामान्य से अधिक तापमान से बुवाई गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतें 1010 के सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर रिकवरी कर सकती हैं और निकट अवधि में 1070 के स्तर पर रजिस्ट्रेंस रह सकता है।

कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी वायदा (मार्च) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी तेल कारोबारियों के लिए सुस्त निर्यात मांग अभी भी एक बड़ी चिंता है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष के 689 हजार टन के मुकाबले वर्ष 2022 में कैस्टर ऑयल का निर्यात 16% घटकर 581 हजार टन रह गया है। आगे चलकर अरंडी की कीमतें 6400-7300 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### सर्साफा

पिछले सप्ताह में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि अमेरिकी साप्ताहिक बेरोजगार दावों की संख्या में गिरावट के बाद फेडरल रिजर्व के रुख को समर्थन मिला कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना होगा। बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से पिछले सप्ताह कम हो गई, जो लगातार बेहतर श्रम बाजार की स्थितियों का संकेत है। इस बीच, चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान पहले के 2.9% की गति से कम होकर 2.7% रह गई है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ें अनुमान से कम रहे लेकिन बेरोजगार दावों में गिरावट ने फेड को इस स्थिति में बनाए रखा ताकि वे दूर बढ़ा सकें। फेड के जनवरी 31-1 फरवरी की बैठक के मिनट से पता चला कि नीति निर्माता इस बात से सहमत हैं कि दरों को और ऊपर ले जाने की आवश्यकता होगी, लेकिन दरों में छोटी वृद्धि करने के साथ उन्हें आने वाले आंकड़ों के साथ अधिक बारीकी से अनुकूल करने में मदद मिलेगी। फेड फंड फ्यूचर्स के ट्रेडर्स को उम्मीद है कि जुलाई में बेंचमार्क दरें 5.343% के अधिकतम स्तर पर होंगी और पूरे साल 5% से ऊपर रहेंगी, जिससे भविष्य में दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई है। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना केंद्रीय बैंक की मुख्य प्राथमिकता है, फेड ने थोड़ा संकेत दिया है कि वह अपनी दर वृद्धि की रोकने की योजना बना रहा है। कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में गिरावट हो रही है और लगातार 1830 डॉलर के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नीचे की ओर यह 1780 डॉलर तक जा सकता है। चांदी की कीमतें 19,800-22,650 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। इस सप्ताह, सोने की कीमतों में बिकवाली जारी रह सकती है और कीमतें 52600-56700 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चांदी पर भी बिकवाली का दबाव रहेगा, जहां कीमतों को 61500 के पास सपोर्ट और 64800 के नजदीक रजिस्ट्रेंस रह सकता है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

पूरे सप्ताह कच्चे तेल में बिकवाली देखी गई क्योंकि निवेशक इस बात को लेकर अधिक चिंतित हो गए कि हाल के आंकड़ों के बाद केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में अधिक आक्रामक वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास और ईंधन की मांग पर दबाव पड़ेगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नवीनतम बैठक के मिनटों से पता चलता है कि फेड के अधिकांश अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की है कि उच्च मुद्रास्फीति के जोखिम मौद्रिक नीति को आकार देने वाले प्रमुख कारक बने हुए हैं और जब तक इसे नियंत्रित नहीं किया गया तब तक दर में वृद्धि जारी रहेगी। जबकि बेहतर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का मतलब बेहतर तेल मांग होना चाहिए, लेकिन चिंता यह है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए फेड मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए मजबूर है। अन्य अमेरिकी आर्थिक रिपोर्टों ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के लिए कुछ परेशान करने वाले संकेत दिखाए। मौजूदा घरों की बिक्री जनवरी में कम होकर अक्टूबर 2010 के बाद से सबसे कम हो गई। प्रमुख अमेरिकी रिफाइनरियों के रखरखाव के मौसम में कच्चे तेल की मांग मौसमी रूप से कम है। फ्लाइंट अवेयर डॉटकॉम के अनुसार, अमेरिका के उत्तरी मैदानों और ऊपरी मिडवेस्ट में बड़े पैमाने पर बर्फालें तूफान ने भी ईंधन की मांग को प्रभावित किया है, क्योंकि देश भर में अब तक 3,500 उड़ानें विलंबित या रद्द कर दी गई हैं। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतें 6000-6700 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इस सप्ताह नेचुरल गैस में सकारात्मक तेजी देखी गई लेकिन फिर भी यह कमजोर है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट अनुसार 17 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान अमेरिकी औद्योगिक संस्थानों ने बिजली उत्पादन और हीटिंग उद्देश्यों के लिए अमेरिकी नेचुरल गैस भंडारण से 67 बिलियन क्यूबिक फीट की अनुमानित निकासी के मुकाबले 71 बिलियन क्यूबिक फीट की निकासी की। इस सप्ताह में कीमतों में शॉर्ट कवरींग हो सकती है और कीमतें 160-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



## बेस मेटल

संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना, जिससे आर्थिक विकास और धातु की मांग कम होने की आशंका है, के कारण बेस मेटल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नवीनतम बैठक के मिनट से पता चला है कि नीति निर्माता मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दर में वृद्धि को बरकरार रखेंगे, लेकिन वृद्धि की गति को धीमा करने के पक्षधर हैं। तांबे की कीमतें 740-775 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के बाद, वास्तविक खपत अगले महीने या दूसरी तिमाही तक बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन, पनामा में एक प्रमुख खदान में अयस्क प्रसंस्करण के निलंबन से दुनिया भर में खनन आपूर्ति बाधित हो गई। इंडोनेशिया, पेरू और चिली में तांबे की आपूर्ति भी बाधाओं का सामना कर रही है, लेकिन विश्लेषकों और व्यापारियों का मानना है कि वे इस साल तांबे के बाजार संतुलन को घाटे में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जिंक की कीमतें 260-280 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक जिंक बाजार में नवम्बर महीने के 66,900 टन के संशोधित घाटे की तुलना में दिसंबर में घाटा बढ़कर 100,500 टन हो गया। लेड की कीमतें 176-190 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर लेड बाजार नवम्बर महीने के 9,200 टन के संशोधित सरप्लस की तुलना में दिसंबर में 6,100 टन की कमी दर्ज की गई है। एल्युमीनियम की कीमतें 200-220 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। युन्नान में उत्पादन में कटौती के प्रभाव का असर बाजार से धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। एल्युमीनियम इंगट के भंडार में वृद्धि जारी है, और हाजिर बाजार में आपूर्ति अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन (मार्च) की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 47000-49600 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

## लेड.....एमसीएक्स पर मिनी वायदा कॉन्ट्रैक्ट

लेड का इस्तेमाल अधिकांशतः कार बैटरियों, मोबाइलों और ई-बाइकों में होता है। अपक्षयरोधी विशेषता के कारण यह सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर करने के लिए उपयुक्त होता है। इसके लचीलेपन के कारण इसका इस्तेमाल भवन निर्माण में भी होता है। विश्व स्तर पर लेड की कुल मांग के लगभग 85% की मांग कार बैटरियों के लिए होती है।

एमसीएक्स पर लेड मिनी वायदा कॉन्ट्रैक्ट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने 22 फरवरी, 2023 से फिर से लेड मिनी वायदा कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है। वर्तमान में मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 के कॉन्ट्रैक्ट कारोबार के लिए उपलब्ध हैं। इस निर्णय का उद्देश्य कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह छोटे व्यापारियों और बेस मेटल के निवेशकों के लिए काफी सकारात्मक है। जनवरी 2020 में मिनी कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया गया था। बंद होने से पहले, मिनी कॉन्ट्रैक्ट का कुल बेस मेटल वायदा के औसत दैनिक कारोबार में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान था। आर्बिट्रेज, जो मिनी कॉन्ट्रैक्टों (जनवरी 2020 से पहले) में मिनी कॉन्ट्रैक्ट बनाम मुख्य कॉन्ट्रैक्ट में संभावित मूल्य अंतर व्यापार के कारण बहुत सक्रिय थे, उनकी फिर से कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में गतिविधि बढ़ने और समय औसत दैनिक कारोबार में वृद्धि होने की उम्मीद है।

### लेड मिनी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशिफिकेशन

सिम्बल	LEADMINI
ट्रेडिंग यूनिट	1 मी. टन
बेस वैल्यू	1 किग्रा
टिक साइज	5 पैसा/किग्रा.
अधिकतम ऑर्डर	100 मी. टन
डिलीवरी	अनिवार्य डिलीवरी
डिलीवरी यूनिट	10% <sup>c</sup> की सहनीय सीमा के साथ 1 मी. टन
प्रारंभिक मार्जिन	न्यूनतम 8% या स्पैन के आधार पर जो भी अधिक हो
अधिकतम स्वीकार्य ओपेन पोजिशन	व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए : 3,500 मीट्रिक टन या बाजार के ओपेन पोजिशन का 5%, जो भी एक साथ सभी लेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए संयुक्त रूप से अधिक हो। सभी ग्राहकों के लिए एक सदस्य के लिए सामूहिक रूप से : 35,000 मीट्रिक टन या बाजार की ओपेन पोजिशन का 20%, जो भी एक साथ सभी लेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए संयुक्त रूप से अधिक हो।
स्टैगर्ड डिलीवरी टेंडर अवधि	स्टैगर्ड डिलीवरी टेंडर अवधि कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम 5 कारोबारी दिन (एक्सपायरी दिन सहित) होगी। ओपेन पोजिशन वाले विक्रेता/खरीदार के पास अलग-अलग डिलीवरी अवधि के दौरान किसी भी दिन डिलीवरी देने/लेने का इरादा जमा करने का विकल्प होगा। एक्सपायरी पर, सभी ओपेन पोजिशन को अनिवार्य डिलीवरी के लिए चिन्हित किया जाएगा।
डिलीवरी केन्द्र	तमिलनाडु में चेन्नई जिला क्षेत्र
अतिरिक्त डिलीवरी केंद्र	1. महाराष्ट्र में ठाणे जिला 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) 3. पश्चिम बंगाल में कोलकाता जिला
क्वालिटी स्पेशिफिकेशन एवं श्रेण	99.97% 99.97% की न्यूनतम शुद्धता के साथ लेड इंगट। केवल एलएमई द्वारा प्रमाणित ब्रांड ही स्वीकार किए जाएंगे। क्वालिटी की जांच के लिए उत्पादक द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ एनॉलिसिस पर भरोसा किया जाएगा।
स्रोत:एमसीएक्स	

## विश्व लेड बाजार

इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर लेड बाजार नवम्बर महीने के 9,200 टन के संशोधित सरप्लस की तुलना में दिसंबर में 6,100 टन की कमी दर्ज की गई है। ग्रुप के अनुसार 2021 में 44,000 टन के सरप्लस की तुलना में पूरे 2022 में 99,000 टन की कमी दर्ज की गई है।

इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के अनुसार, वैश्विक स्तर पर रिफाईंड लेड की मांग 2021 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, 2023 में 1.4 प्रतिशत बढ़कर 12.6 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ग्रुप को उम्मीद है कि 2022 में विश्व स्तर पर रिफाईंड लेड की आपूर्ति 0.3 प्रतिशत घटकर 12.34 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी, जो 2023 में 1.8 प्रतिशत बढ़कर 12.56 मिलियन मीट्रिक टन हो सकती है।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।